



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 216]
No. 216]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 11, 1983/वैशाख 21, 1905
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 11, 1983/VAISAKHA 21, 1905

इत भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 1983

का० डा० 358 (अ) —केन्द्रीय सरकार, डालमिया धावरी सीमेंट लि० (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1981 (1981 का 31) की धारा 30 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाल-मिया धावरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) निधि प्रशासन नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ:—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) “अधिनियम” से डालमिया धावरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1981 (1981 का 31) अभिप्रेत है;

(ख) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ग) “भविष्य निधि” से ऐसी भविष्य निधि अभिप्रेत है जो मैसर्स डाल-मिया धावरी सीमेंट लिमिटेड ने उसके स्वामित्व में के उपक्रमों में से किसी उपक्रम में नियोजित व्यक्तियों के फायदे के लिए स्थापित की है।

3. भविष्य निधि का प्रशासन:—ऐसे कर्मचारियों से, जिनकी सेवाएँ, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या संबंधित सरकारी कंपनी को अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अंतरित हो गई हैं, संबंधित भविष्य निधि, अधिवाधिक निधि, कल्याण निधि, या किसी अन्य निधि में जमा धनराशियों के संबंध में, नियत दिन से ही और उस समय तक जब तक उनके प्रशासन या व्यय की वैकल्पिक रीति या दोनों विहित नहीं की जाती हैं, नियत दिन से ठीक पहले ऐसी भविष्य निधि, अधिवाधिक निधि, कल्याण निधि या किसी अन्य निधि को और उसके प्रशासन को लागू नियमों, विनियमों और उपनिधियों के या उनको शासित करने वाली किसी विधि के अनुसार, ऐसे अंतरणों सहित जो समुचित प्राधिकारी द्वारा उक्त नियमों, विनियमों और उपनिधियों में किए जाएँ, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या संबंधित सरकारी कंपनी द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

[फा० सं० 20(1)/33-सीमेंट]
सी० के० मोदी, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 1983

S.O. 358(E).—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Dalmia Dadri Cement Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1981 (31 of 1981), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Dalmia Dadri Cement Limited (Acquisition

and Transfer of Undertakings) Administration of Funds Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules unless the context otherwise requires—

- (a) "Act" means the Dalmia Dadri Cement Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1981 (31 of 1981);
- (b) 'section' means a section of the Act;
- (c) "provident fund" means the Provident Fund established by Messrs Dalmia Dadri Cement Limited for the benefit of persons employed in any of the undertakings owned by them.

3. Administration of Provident Fund.—The monies standing to the credit of the provident fund, superannuation fund, welfare fund or any other fund relating to the employees whose services stand transferred by or under the Act to the Central Government or the concerned Government company, as the case may be, shall, on and from the appointed day and till such time as alternative modes of their administration or disposition or both are formulated, be dealt with by the Central Government or the concerned Government company, as the case may be, in accordance with the provisions of the rules, regulations and bye-laws applicable to, or of any law governing the provident fund, superannuation fund, welfare fund or any other fund and its administration immediately before the appointed day, with such modifications as may be carried out in the said rules, regulations and bye-laws by the appropriate authority.

[File No. 20(1)/83-Cement]
C. K. MODI, Joint Secy.